

## O. P. CHAINS LIMITED

Date: 07.09.2020

Regd Off: 8/16 A; Seth Gali, Agra-282003 Uttar Pradesh

(CIN: L27205UP2001PLC026372) E Mail: opchains@rediffmail.com Web: www.opchainsltd.com

Ph: 0562-2453117, Fax: 0562-4044990

To

Corporate Compliance Department BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400001

BSE Scrip Code: 539116

SUB-Submission of Newspaper Publication for 19th Annual General Meeting

Dear Sir,

Please find attached herewith Newspaper Publication of Notice of 19<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company as per Regulation 42 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for your information and records.

And following is the link of Notice of 19th Annual General Meeting uploaded on website

http://www.opchainsltd.com/NOTICE-of-AGM-Announcements.pdf

You are requested to take on the record and do the needful. Thanking You

Yours Faithfully

For O.P. Chains Limited

Ashok Kumar Goyal Whole Time Director DIN: 00095313

- Notice is hereby given that 36th Annual General Meeting of the Members of Chamak Holdings Limited will be held on Monday, the 28th September, 2020 at 02.30 P.M at the registered office of the company 55-B, Rama Road Industrial Area, New Delhi-110015, to transact the businesses, as set out in the Notice dated 30\* July, 2020
- Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2019-20 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same is also available on the Company's website www.chamakholdings.com Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2019-20 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-of
- date of 18th September, 2020, may cast their vote electronically on the Ordinary Business Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGN ("remote e-voting"). All the members are informed that:
- The Ordinary Business and Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
- the remote e-voting shall commence on September 22, 2020 at 9:00 a.m.;
- the remote e-voting shall end on September 27, 2020 at 5:00 p.m.;
- the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 18th September, 2020;
- any person who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 18 September, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request a evoting@nsdl.co.in However, if a person is already registered with NSDL for e voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
- members may note that a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolutio is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; by the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; and of the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) a person whos name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper;
- the Notice of AGM is available on the Company's website www.chamakholdings.com an also on the NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com; and
- ii. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholder. and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com. You can also contact NSDL via email at evoting@nsdl.co.in. Members may also write to the Managing Director of the company at the email ID chamakholdings@gmail.comor the Registered. Office address. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain close
- from 22<sup>nd</sup> September, 2020 to 27<sup>th</sup> September, 2020 (both days inclusive).

For Chamak Holdings Limited

Place: New Delhi Deepti Gupta Dated: 05/09/2020 Compliance Officer & Company Secretary

DR.FRESH ASSETS LTD

## CIN: L74899DL1990PLC042302

Regd Office: B 1/E-24 Mohan Co-operative Industrial Area, Mathura Road, New Delhi- 110 044

Tel. No. 91-11-41679238, Fax. No. 91-11-26940969

E-mail: drfresh@drfreshassets.com; Website: www.drfreshassets.com NOTICE TO SHAREHOLDERS REGARDING

30TH ANNUAL GENERAL MEETING Notice is here by given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will

be held on Sunday, 27th September, 2020 at 3:00 P.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) facility in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. read with Ministry of Corporate Affairs General Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 ("MCA Circulars") and SEBI Circular dated May 12, 2020 ("SEBI Circular'), without the physical presence of Members at a common venue. Members will be able to attend the AGM through VC/QAV Mifacility only. Members participating through the VC/OAV M facilitys hall be reckoined for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circular, the Notice of AGM and the Annual Report 2019-

20 including the financial statements for the financial year 2019-20, along with Directors Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sentionly by email to all the Membersof the Company whose email addresses are registered. with the Company! Depositary Participant(s). The aforesaid documents will also be made available on the website of the Company i.e. www.difieshassets.com and the websites of the stock exchanges where the shares of the Company are listed i.e. www.msei.in as well as on the website of National Securities Depository Limited i.e. www.evoting.nsdl.com. Manner of casting vote (s) through e-voting Members will have an opportunity to cast their vote (s) on the business as set out in

- the Notice of the AGM through electronic voting system ('e-voting'). The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in
- dematerial ised mode, physical mode and for members who have not registered the in e-mail addresses will be provided in the Notice of the AGM. The facility for e-voting will also be made available at AGM and Members attending
- the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the The log in credentials for casting votes through e-voting shall be made available to
- The same login credential may also be used for attending the AGM through VC/

n case you have not registered your e-mail address with the Company/ Depository, please follow below instructions for obtaining the Annual Report and login-in details for joining

- Physical holding: pleasesend scan copy of a signed request/letter mentioning your Folio No., Name of share holder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card), by email to the Company's email address at diffiesh@diffieshassets.comor to the email id of Mas Services Ltd- Registrar &
- Share Transfer Agent (RTA) of the Company at mas\_serv@ya hoo.com. Demat holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your e-mail address in your demat account, as per the process advised by your DP. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for plining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM.

For and behalf of the Board Dr. Fresh Assets Ltd

Vijay Prakash Pathak

Whole Time Director DIN: 07081958

## Date: 03.09.2020 KIMIA BIOSCIENCES LIMITED

(Formerly known as LAUREL ORGANICS LIMITED) Regd. Off.: Vill. Bhondsi, Tehsil Sohna, Gurgaon-122102, Haryana

E-mail: laurelorganicslimited@gmail.com Web: www.laurel.co.in CIN: L24239HR1993PLC032120, Tel: 011-47063600, Fax: 011-47063601/02

NOTICE OF THE 27TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

#### Notice is hereby given that: The 27th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Kimia Biosciences Limited

Place: New Delhi

the AGM/ exercising e-voting facility:

- ("the Company") will be held on Monday, September 28, 2020 at 03:30 p.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM only through e-voting facility.
- The AGM will be held only through VC / OAVM in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and circulars dated May 5, 2020, April 8, 2020 and April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated May 12, 2020 Facility for appointment of proxy will not be available for the AGM. The instructions for joining the AGM electronically are provided in the Notice of the AGM. Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 will be sent only through
- electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or CDSL/ NSDL ("Depositories") and will also be available on the Company's website www.laurel.co.in and website of the Stock Exchanges i.e. at www.bseindia.com.
- Members who have not registered their email addresses and in consequence the Annual Report including Notice of AGM and e-voting instructions could not be serviced. may get their email address and mobile number registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Beetal Financial and Computer Services Private Limited for sending the same. Alternatively, members may send an e-mail request at the email id laurelorganicslimited@gmail.com or beetalrta@gmail.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for obtaining the Annual Report, Notice of AGM and the e-voting instructions. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited as
- the authorized agency for conducting of the AGM electronically and for providing evoting facility. The remote e-voting period will commence from Friday, September 25, 2020 (9:00 a.m. IST) and ends on Sunday, September 27, 2020 (5:00 p.m. IST). During this period the eligible shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, may cast their vote electronically. The e-voting module will be disabled by NSDL for voting thereafter i.e. voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on September 27, 2020. Facility for e-voting shall also be made available during the AGM to those Members who attend the AGM and who have not already cast their vote. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote evoting and e-voting at the AGM is Monday, September 21, 2020. Any person, who becomes a member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to beetalrta@gmail.com or laurelorganicslimited@gmail.com to cast his/her vote. The detailed procedure for obtaining the login ID and password and exercising e-voting is provided in the Notice of AGM.
- In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email id - evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or
- SoniS@nsdl.co.in or at telephone nos.:- +91 22 24994545, +91 22 24994559, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share
- Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 22, 2020 to Monday, September 28, 2020, (both days inclusive), for the 27thAGM for the financial year ended March 31, 2020. By the Order of the Board of Directors

Place: 05.09.2020

financiales .epas.in

Date: New Delhi

For Kimia Biosciences Limited Sameer Goel (Managing Director) (DIN: 00161786)



**POSSESSION NOTICE** 

[Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

Where as, The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under the

Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (here in after referred to as "the Act") and in exercise

of powers conferred under Section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest.

(Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 07.08.2019 Calling upon the

borrower Jairaj S/o Chranji Lal, Shri Sanjay Bansal S/o Jeet Ram Bansal to repay the

amount mentioned in the notice being Rs. 11,32,996.77 (Rupees Eleven Lakh Thirty

Two Thousand Nine Hundred Ninety Six and Seventy Seven Paisa Only) as on

31.07.2019 and further interest and cost from 01.08.2019. Within 60 days from the date

The borrower of property having failed to repay the amount, notice is hereby given to the

borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken

possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on

him/her under section 13(4) of the said rule 8 & 9 of the security Interest (Enforcement)

The borrower/guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of Land and Building Khata No. 92, Khasra No. 172, area

125.41 sq.mtr. Residential Colony Shivpuri Village Mawayi, Tehsil and Distt

Ghaziabad Owned by Jai Raj Singh and Bounded: North: Road 12 Feet, South:

KUMAR FOOD INDUSTRIES LIMITED

CIN: L15310DL1991PLC043456

Reg. Off.: 71/1, Siraspur, Delhi-110042

Contact: 011-27357808, Fax: 011-47055499

E-mail: info@kumarfood.com, Website: www.kumarfood.com

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting of the members of KUMAR

FOOD INDUSTRIES LIMITED ('the Company') will be held on Wednesday, September

The Annual Report for the financial year 2019-20 including the Notice convening the Meeting

has been sent to the members to their registered address by courier, and electronically to

those members who have registered their e- mail address with the Depositories I Company.

The Annual Report for the financial year 2019-20 including the Notice is available on the

website of the Company (www.kumarfood.com) and also available for inspection at the

Registered Office of the Company on all working days except Sundays and Public Holidays.

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions

proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). Members may cast

their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the

Meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of National Securities

The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password.

long with a copy of the Notice convening the Meeting, has been dispatched to the members

The formal of communication for e-voting is available on the website of the Company.

The remote e-voting facility shall commence on Sunday, September 27, 2020 from 10:00

a.m. and end on Tuesday September 29, 2020 at 5:00 p.m. The remote a-voting shall not

A person, whose name appears In the Register of Members/ Beneficial Owners as on the

cut-off date, i.e., Monday, September 21, 2020, only shall be entitled to avail the facility

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the

Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password

inter alia by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for

obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which

is available on Company's website and NSDL's website. If the members already

registered with NSDL for e-voting, he can use his existing User ID and password for

REGISTRATION OF EMAIL ADDRESS: Members who have not yet registered their

email addresses are requested to register their email addresses. Members holding

shares in demat form are requested to update the same with their Depository Participant

and to Skyline Financial Services Private Limited ('RTA') for members holding shares

Members who have cast their vote(s) by remote a-voting may also attend the meeting but

RECORD DATE

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and

applicable rules there under that the Company has fixed Monday, September 21, 2020 as

the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to vote at the Annual

PTC INDUSTRIES

CIN: L271090P1963PLC002931

Regd. Office: AMTC, NH-25A Sarai Shahjadi, Lucknow-227101, Uttar Pradesh, India

Phone: 0522-7111017:

Fax: 0522-7111020, Email: ptc@ptcil.com, Website: www.ptcil.com

NOTICE OF 57th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE

AND REMOTE E-VOTING INFORMATION TO MEMBERS

1) The 57th Annual General Meeting ("AGM") of the PTC Industries Limited will be

held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on

Wednesday 30th September, 2020 at 03:00 (PM), in compliance with all the

applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder

and the Securities and Exchange Board of India 2019 India ("SEBI") (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General

Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April

13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, and other

applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI

(collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out In

the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC.

OAVM through the CDSL e-Voting system. Members may access the same at

https://www.evotingindia.com under shareholders/members login by using the

remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and financial

statements for the financial year 2019-20, along with Board's Report, Auditors'

Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the

Members of the Company whose email addresses are registered with the Company

/ Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the

website of the Company at www.ptcil.com, website of BSE Limited at

www.bseindia.com and on the website of CDSL (agency for providing the Remote

(a) In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of

shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-

attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of

(b) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered

updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to

register/ update their email addresses with the Depository Participants with whom

(a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out

(b) The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares

in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered

their email addresses has been provided in the Notice of the AGM. The details will

(c) The facility for voting through electronic voting system will also be made

available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their

(d) The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available

to the members through email. Members who do not receive email or whose email

addresses are not registered with the Company/Depository Participant(s), may

generate login credentials by following instructions given In the Notes to Notice of

(e) The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the

AGM and in particular, instructions for Joining the AGM, manner of casting vote

6. Members are further informed that the remote e-voting period shall start from

09.00 A.M on September 27, 2020 to 5.00 P.M. (IST) on September 29, 2020 (both

A person, whose name is recorded in the Register of Members or In the Register

of Beneficial Owners (in case of electronic shareholding) maintained by the

Depositories as on the cut-off date i.e. September 23, 2020, only shall be entitled to

For PTC Industries Limited

Company Secretary & Compliance Officer

(Anuj Nigam)

in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting").

also be available on the website of the Company at www.ptcil.com.

vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM.

through remote e-voting or voting during the AGM.

days Inclusive).

Place: Lucknow

Date: 04.09.2020

e-Voting facility and e-voting system during the AGM i.e. www.evotingindia.com

Manner of registering / updating email addresses:

Aadhar Card) by email to rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

they maintain their demat accounts.

4. Manner of casting vote(s) through e-voting:

shareholder/members login where the EVSN of Company will be displayed.

2020 at 04:00 P.M. at 71/1, Siraspur, Delhi-110042 ("the Meeting").

Depository Limited (NSDL) as the Agency to provide e-voting facility

www.kumarfood.com in and on the website of NSDL; nsdl.co.in.

during business hours up to the date of the Meeting.

be allowed beyond the aforesaid date and time.

of remote e-voting /voting at the Meeting

casting the vote through remote e-voting.

shall not be entitled to cast the vote(s) again.

General Meeting

Place: New Delhi

Date: 05.09.2020

Authorised Officer, Canara Bank,

Regional Office

Rules, 2002 on this the 02nd day of September of the year 2020.

Only) as on 31.08.2020 and further interest & costs etc from 01.09.2020.

Remaining Part of Plot, East: Plot of Digar Malik, West: Plot of Kaushik.

20

of receipt the said notice.

Date: 02.09.2020

Place: Ghaziabad

#### UJALA COMMERCIALS LIMITED CIN: L93000DL1985PLC021397

Regd. Office: A-6/343B, 1st Floor, Janta Flats, Paschim Vihar, New Delhi-110063

E-mail: csujala.commercial@gmail.com; Website: www.ujalacom.in Phone: 011-49879687

### Notice to the Members

In view of the continuing covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its circular dated May 5, 2020 read with circular dated 08.04.2020 and 13.04.2020 respectively permitted the holding of AGM through Video conference or other audio-video In compliance with these circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013

and SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements), 2015, the upcoming AGM of the Company will be held on 30.09:2020 at 12:00 Noon through VC/OAVM. As per aforesaid circulars, the notice of the AGM along with Annual Report for FY 2019-20

has to be sent only by electronic means to those members whose Email-ID are already registered with the Company/Depositories. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices. If your email ID already registered with the Company/Depository, Notice of AGM along with

Annual Report for FY-2019-20 and login details for e-voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your mail id with the Company/Depository please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2019-20 and login details for e-voting: Send a request to Registrar and Share Transfer Agents of the Physical Holding

deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Canara Bank, Vijay Nagar, Ghaziabad Branch for an amount of Rs. 10,58,935.51 (Rupees Ten Lakh Fifty Eight Thousand Nine Hundred Thirty Five and Fifty One Paisa

Company, Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd a beetalrta@gmail.com providing folio numberand complete address, name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Fron and Back). PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar card) for registering email

Please contact your Depositary Participant (DP) and register you

Please update your bank details with your DP for dividend payment, it

Demat Holding

declare by Company. The notice of AGM and Annual Report for FY 2019-20 will also be available on Company's website- www.ujalacom.in and website of MSEI at www.msei.in.Members attending the

neeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103

email address as per the process advised DP.

of the Companies Act, 2013 The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in Compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular.

For and on Behalf of Ujala Commercials Limited

Date: 04.09.2020 (Company Secretary & Compliance Officer)

Place: Delhi

Poorti Goel

#### B.C. POWER CONTROLS LIMITED (CIN: L31300DL2008PLC179414)

Regd. Office: 7A/39, WEA Channa Market, Karol Bagh, New Delhi-110005 Email: info@bonlongroup.com, Website: www.bcpowercontrols.com Phone: 011-47532795, Fax: 011-47532798

12" Annual General Meeting to be held over VC/OAVM This is to inform that in view of the outbreak of Covid-19 pandemic, the 12" Annual General

Meeting ("AGM") of B.C. Power Controls Limited ("the Company") will be held through video conferencing (VC)/ other audio visual means (OAVM) on Wednesday, 301 September, 2020 at 01:00 P.M. in compliance with Ministry of Corporate Affairs (MCA) general circular no. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 and all other applicable laws and circulars issue by MCA, Government of India (GOI) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) (collectively referred to as Circulars) to transact the business as set out in the Notice of AGM which will be sent in due course of time. Members may further note that in pursuance of above stated circulars and in furtherance of

Go-Green initiative of the government, the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2019-20, will be sent through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant. The members attending the meeting through VC or OAVM shall be counted for the purpose of quorum under section 103 of the Act. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices. The e-copy of the notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2019-20 of the

Company will be available on the website of the Company at www.bcpowercontrols.com and also be available on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com, in due course of time.

The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. Detailed instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM, Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the AGM of the Company in person, to ensure compliance with the directives issued by the government authorities with respect to Covid-19 pandemic. In case the email address is not registered with the Company / Depository Participant

please follow the process of registering the same as mentioned below: Physical The 100% share capital of the Company is in De-materialized Form.

Holding

For and on behalf of

Dharminder Joshi

Director DIN 05186749

Kumar Food Industries Limited

Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email Demat Holding address as per the process advised by DP.

Members may also note that if your e-mail id is registered with the Company/Depository Participant, the login credentials for remote e-voting / e-voting during the AGM will be sent on the registered e-mail address along with the notice of AGM. However members who have not registered their email-id can follow the procedure for registering e-mail id as mentioned above. Members may note that the detailed procedure for remote e-voting / evoting during the AGM is also mentioned in the notice of AGM. The above information is being issued for the information and benefit of all the members of

the Company and is in compliance with the MCA Circular(s) and the SEBI Circular.

For and on behalf of B.C. Power Controls Limited Arun Kumar Jain

Date: 05.09.2020 Place: New Delhi

(Managing Director) DIN: 00438324 CONTINENTAL SECURITIES LIMITED

Regd Office: Flat No. 301, Metro Plaza, Parivahan Marg Jaipur Rajasthan 302001 IN Email-continentalsecuritieslimited@gmail.com • Website: www.continentalsecuritiesltd.com Phone No: 0141-2943037, CIN: L67120RJ1990PLC005371 NOTICE FOR 30th ANNUAL GENERAL MEETING,

#### BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION CONTINENTAL SECURITIES LIMITED ("Company") were informed that in compliance with the

provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed there under and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ['SEBI (LODR) Regulations"] read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No SEBI;HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), the Board of Directors decided to convene the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Company on Saturday, 26th September, 2020, at 02:00 P.M. IST through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business as set out in the Notice of 30th AGM.

The Notice of 30th AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31 2020 along with login details for joining the 30th AGM through VC / OAVM facility including e-voting has been sent on Monday, September 04, 2020 through e-mail to all those Members whose e-mail address were registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP") in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular, and the same are also available on Company's website (www.continentalsecuritiesItd.com), Stock Exchange's website (www.bseindia.com) and on the website of Central Depository Services Limited (CDSL) website at www.evotingindia.com In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies (Management and

Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, Secretarial Standardissued by the Institute of Company Secretaries of India and MCA Circulars, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) services provided by CDSL all resolutions set forth in the Notice of the 30th AGM. The remote e-voting shall commence on Wednesday, 23th September 2020 (10:00 A.M. IST) and ends on Friday, 25th September 2020 (05:00 P.M. IST) During this period, Members may cast their vote electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the

AGM through VC / DAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting facility available during the AGM. Once the Member cast vote on a resolution, the Member shall not be allowed to change it subsequently Detailed instructions for remote e-voting, joining the AGM and e-voting during the AGM is provided in the

Shri. Ajay Khandelwal, Practicing Chartered Accountant, Jaipur, has been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting process in a fair and transparent manner.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, September 04, 2020 ("Cut-off date"). A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date shall only be entitled to join the AGM, avail the remote evoting and e-voting facility during the AGM. A person who ceases to be a Member as on Cut-off date

should treat this Notice for information purposes only.

dispatch of the Notice of 30th AGM and holding shares as on the Cut-off date, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of 30th AGM or sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com However, if he/she is already registered with CDSL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and password to cast their vote. If you have not registered your e-mail address with the Company/DP, you may please follow the below instructions for obtaining login details for e-voting:

Any person, who acquire shares and become Member of the Company after the date of electronic

Please send a request to Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd, Registrar and Physical Share Transfer Agent at beetal@beetalfinancial.com, providing your name, folio number scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN

card and self-attested scanned copy of Aadhar Card, for registering e-mail address. Please contact your DP and register your e-mail address in your demat account, as per the Holding process advised by your DP.

Further, pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and Rules framed there under and

Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, September 21, 2020 to Saturday, September 26 (both days inclusive) for the purpose of 30th AGM. The result of voting will be declared within 48 hours from the conclusion of AGM i.e. on or before 28th September, 2020 and results so declared along with the consolidated Scrutinizer's Report will be

placed on the Company's website (www.continentalsecuritiesItd.com) and CDSL website The above-mentioned details of 30th AGM viz. date & time of 30th AGM to be convened through VC OAVM facility, book closure, remote e-voting and e-voting details be read and substituted at all places appearing in the Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2020.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542)

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL, ) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

For CONTINENTAL SECURITIES LIMITED Place : Jaipur Rajesh Khuteta (Managing Director) DIN: 00167672 Date: 05-09-2020

VENUS Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors is proposed to be 2015 You'ce is hereby given that the meeting of the held on Tuesday the 15th day of September 2020 to inter alia consider

and approve: Unaudited Financial Results for the quarter ended on 30.06.2020.

the chair

immediate relatives.

Any other item with the permission of

Further, as already informed to exchanges, the trading window would remain closed till 48 hours from the publication of financial results for designated persons and their

for Venus Remedies Limited Chandigarh 05.09.2020 (Managing Director)

Corporate Office: 51-52, Industrial Area, Phase-I, Panchitula, (Haryana)

CIN: 24232CH1989PLC009705, website: www.venusremedies.com

Listed on MSE (rewindle.com) & BSE (bseindle.com)

BCC fuba

BCC FUBA INDIA LIMITED

CIN: L51395HP1985PLC012209 Regd. Office: 4 K.M., Swarghat Road,

Nalagarh-174101,

Distt. Solan (H.P.) Tel: 9218423157 .

Website: www.bccfuba.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to provisions

and also on the Website of Bombay Stock

Exchange (BSE) where the Company's

Company Secretary & Compliance Officer

For BCC Fuba India Limited

Dinesh Kumar Yadav

ended on 30" June, 2020.

shares are listed.

Place: New Delhi

Date: 05.09.2020

means (OAVM).

VENUS REMEDIES LIMITED R.O.: SCO 857, C.No.19, 2nd Floor, NAC, Manimajra, Chandigarh

Website: www.opchainsltd.com Notice is hereby given that 19th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 28th September, 2020 at 11:00 A.M. onwards

Central Bank Road, Kamla Nagar, Agra, Uttar Pradesh-282005 to transact Ordinary business as setout in the notice of AGM dated 27th August, 2020. The said notice along with proxy form, attendance slip and Annual Report together with Financial Statements have been sent to all the Members electronically whose E-mail Id's are registered with the Companyas on 05.09.2020. For those shareholders who did not received these related documents they can get copy of the same from the website of the company.

available on the website of Bombay Stock Exchange i.e www.bseindia.com BOOK CLOSURE: - Notice is further given that the Register of Members and

the Share Transfer Books of the company will remain closed from Monday, 21st September, 2020 to Monday, 28th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM. For O. P. CHAINS LIMITED

Date: 05.09.2020 Whole Time Director

n view of the continuing covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its circular dated May 5, 2020 read with circular dated 08.04.2020 and 13.04.2020

In compliance with these circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013

As per aforesaid circulars, the notice of the AGM along with Annual Report for FY 2019-20 has to be sent only by electronic means to those members whose Email-ID are already

registered with the Company/Depositories. The company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices. If your email ID already registered with the Company/Depository. Notice of AGM along with annual Report for FY-2019-20 and login details for e-voting shall be sent to your registered

email address. In case you have not registered with the Company/Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2019-20 and login details for e-voting: Send a request to Registrar and Share Transfer Agents of the

Demat Holding

shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back) PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar card) for registering email address. Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as per the process advised DP.

Company, Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd at

beetalrta@gmail.com providing folio number, name of the

he notice of AGM and Annual Report for FY 2019-20 will also be available on Company's website- www.mnil.in and website of BSE at www.bseindia.com Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103

Ms. Kanika

# Regd. Office: Vardhman Park, Chandigarh Road, Ludhiana-141 123

# E-Mail- secretarial@vpl.in, Website: www.vpl.in

PUBLIC NOTICE- 40TH ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that:

- Tuesday, the 29th day of September, 2020 at 04:30 P.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set forth in the Notice of the AGM dated September 01, 2020.
- issued by MCA, the Company will not send physical copies of AGM Notice and Annual Report to the shareholders. The same are also available on the website of the company at www.vpl.in and on the website of stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 04th September, 2020. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut-
- business as set forth in the Notice of the AGM through e-voting facility provided by Central Depository Services Limited (CDSL) (remote e-voting) or at the AGM through venue voting facility. All the members are informed that:

by electronic means;

- The remote e-voting shall commence on September 26, 2020 (9:00 a.m. IST);
- September 28, 2020;
- Company after dispatch of notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2020 may cast their votes by following the instructions and process of e-voting as provided in the notice of AGM. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
- beyond 05:00 p.m. IST on September 28, 2020 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and c) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut- off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting;
  - http://www.evotingindia.com;
- x. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to

Adish Oswal Chairman & Managing Director

New Delhi

Date: 05.09.2020

Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday. 15th September, 2020 at 0:00 p.m. at the Registered Office of the Company to interalia consider approve and take on record the Un Audite Financial Results of the Company for the quarter ende 30th June. 2020

The said notice may be accessed on the Company! website at www.mcil net and may also be a coessed o the website of the stock exchange a twww beeind is con For Metal Coatings (India) Limited

Place: Yew Delhi

O. P. CHAINS LIMITED

Email Id: opchains@rediffmail.com

at Temptation (Restro Lounge), B-87,

www.opchainsltd.com and also The information is also available on the Company's Website www.bccfuba.com

MEGA NIRMAN & INDUSTRIES LIMITED CIN: L70101DL1983PLC015425

and SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements), 2015, the upcoming AGM of the Company will be held on 30.9.2020 at 11:00 AM through VC/OAVM.

respectively permitted the holding of AGM through Video conference or other audio-video

Please update your bank details with your DP for dividend payment

by NACH, if declare by Company. of the Companies Act, 2013.

For and on Behalf of Mega Nirman & Industries Limited

(Company Secretary)

VARDHMAN POLYTEX LIMITED

The 40th Annual General Meeting (AGM) of Members of the Company will be held on

 The remote e-voting shall end on September 28, 2020 (5:00 p.m. IST); iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the

vi. Any person, who acquires shares of the company and becomes member of the

vii. Members may note that: a) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL.

helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 18002005533. xi. Mr. Ajay K. Ratra, Company Secretary (e-mail: ajay.ratra@vpl.in) may be contacted at the above stated contact details, in case of any grievances connected with the e-

of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations)

and Disclosure Requirements), 2015, that meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, All these documents are also available 11" day of September, 2020 at 4:00 P.M. at on the website of the company i.e. E-6, First Floor, Connaught Circus, New Delhi-110001, to consider and approve interalia Un-Audited Financial Results along with Limited Review Report for the First Quarter

> Ashok Kumar Goyal Place : Agra

Regd. Office: A-6/343B, 1st Floor, Paschim Vihar, New Delhi-110063 E-mail: secretarial.mnil@gmail.com Website: www.mnil.in Phone: 011-49879687

Place: Delhi

Date: 04.09.2020

(V)P/L

CIN: L17122PB1980PLC004242, Phones: 0161-6629888, Fax: 0161-6629988

E-copies of the Notice of AGM and Annual Report have been sent to all the members whose E-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). Shareholders may please note that in compliance of the circulars

off date Tuesday, 22nd September, 2020, may cast their vote electronically on the

The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting

AGM is 22nd September, 2020; v. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 05:00 p.m. IST on

viii.The Notice of AGM is also available on the CDSL's website

ix. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, 25th September, 2020 to Tuesday, 29th September, 2020 (Both

For Vardhman Polytex Limited Place: Ludhiana

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

**FE SUNDAY** 

CIN: L74899D L1994PL C083387

Yehru Place Yew Jehi - 110 019

Website www.mcil.net Email info@mcilinda.net

Tel 011 41808125

MOTICE

ere d'office 912. Hemkunt Chambers 89.

Kapil Sharma Company Secretary & Compliance Office

CIN: L27205UP2001PLC026372 R/O: 8/16 A, SETH GALI, AGRA, UTTAR PRADESH-282003

# IndiaShelter کین لید چه لاد لد الانتخاری

थी जी

FE

Place: New Delhi

Date: 05-09-2020

किशनगढ़ (अजमेर) क्षेत्र को कथर करने वाले जयपुर संस्करण में फाइनेशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और जनसत्ता (हिंदी) में 04.09.2020 को समामार पण में प्रकाशिय हमारी कम्ला समाना को देखें। परन्त जनसत्ता के विज्ञापन में ऊपर और नीचे अनुवाद में कंपनी का नाम पूरी तस्त्र से अनुवाद नहीं किया गया था यानी इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिप्टिड के मजाय इंडिया शेल्टर लिखा था।

इसलिए इंडिया शेल्टर कॉरपोरेशन फाइनेंस लिम्टिड को सही नाम के रूप में पदा जाना चाहिए। शेष भिषय में कोई भदलाय नहीं है।



BCC FUBA INDIA LIMITED CIN: L51395HP1985PLC012209 Regd. Office: 4 K.M., Swarghat Road, Nalagarh-174101, Distt. Solan (H.P.) Tel: 9218423157, Website: www.bccfuba.com

ended on 30th June, 2020.

Company's Website www.bccfuba.com and also on the Website of Bombay Stock Exchange (BSE) where the Company's shares are listed.

Dinesh Kumar Yadav

Company Secretary & Compliance Officer

# ओ. पी. चेन्स लिमिटेड

ई-मेल : opchains@rediffmail.com वेबसाइट www.opchainsltd.com

सुचित किया जाता है कि कंपनी की 19वी वार्धिक आम बैठक (एजीएम) नोटिस पंजीकृत है, पर भेज दिया गया है।

उन शेयरधारकों के लिये जिन्हें ये सम्बन्धित दस्तावेज नहीं मिले हैं, वे कंपनी की वेबसाइट से उसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं

www.opchainsltd.com पर भी उपलब्ध हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

बुक क्लोजर:- आगे सूचित किया जाता है कि एजीएम के प्रयोजन के लिये कंपनी के शेयरधारकों और शेयर दांन्सफर बुक्स सोमवार,21 सितम्बर, 2020 से सोमवार, 28 सितंबर, 2020 (दोनों दिन समावेशी) तक बंद

ओ.पी. चेन्स लिमिटेड के लिये

ख्यान:- आगरा अशोक कुमार गोयल दिनांक : 05.09.2020

अचल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

ब्लॉक, शकरपर, दिल्ली-110092 ई मेल आई डी : achalinvest@yahoo.com; वेय साइट : www.achalinvest.com; CIN: L65993DL1980PLC010636 एतदद्वारा सुचित किया जाता है की वार्षिक आम

बैठके (एजीएँम) मंगल, 29 सितम्बर, 2020 को प्रात

व्हीं से भी अपना बोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और कथित वोटिंग के माध्यम से कारोबार

वेवरणों से शामिल वार्षिक रिपोर्ट के साथ कथित पर भी उपलब्ध हैं तथा एजीएम की सूचना नेशनल सक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (ऐनएसडीएल) की वेबसाइट https://evoting.nsdi.com पर में

रूप से दे सकते हैं। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा 28 सितम्बर, 2020 को (साय 5.00) बज सदस्य हे. वह श्रिमाट इ—बाटिंग या एजाएम म मतदार

है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारण करता है, वह रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में बैलेट पेपर द्वारा वोटिंग के माध्यम से एजीएम की सुचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने के लिए योग्य है। ऐसा व्यक्ति evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सँकता है। यद्यपि, यदि सदस्य पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह रिमोट ई—दोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर

सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में उपस्थित होंने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, केवल वहीं एजीएम में अपना वोट देने के पात्र होंगे। रिमोट —वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने वाले सदस्य भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में दांबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

www.evoting.nsdl.com पेर हेल्प सैक्शन के अंतर्गत ई-मेलः evoting@nsdl.co.in पर लिखा सकते या एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल फ्री न शिकायत / समस्या के लिए सदस्यगण मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार एड शेयर ट्रांसफर

एजेंट से भी सम्पर्क कर सकते हैं। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन हेत् कम्पनी

बैठक में भाग लेने एवं वोट देने का हकदार व्यक्ति रवयं व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से भी अपना वोट दे सकता है बशर्त कि सभी प्राक्सी के लिए निर्धारित प्रारूप / बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने के लिए व्यक्ति द्वारा विधिवत सत्यापित प्रॉक्सी फार्म बैठक से 48 घंटे पूर्व

दिनांक । 05.09.2020 प्रदीप कुमार स्थान : नई दिल्ली

www.readwhere.com

# NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off: 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi - 110025 Tel. No.: 011-49872442, 19 E-mail: cs@modisteel.net CIN: L74899DL1987PL0026617

exerate on unrauteless finantial results for the quality entities such fully, abou

Part iculars	Quarter Ended			Year Ended
	30:06:2020 Un-Audited	31.03.2020 Audited	30.06.2019 Un-Audited	31.03.2020 Audited
Total income from operations	81.73	482.57	604.46	1996.15
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional)	(24.86)	(51.55)	(20.79)	(92.78)
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and after Exceptional)	(24.86)	(51.55)	(20.79)	(92.78)
Net Profit / (Loss) for the period (after tax and Exceptional)	(26.96)	(42.42)	(22.26)	(89.08)
Equity Share Capital	466.96	466.96	466.96	466.96
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1754.53
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic (in Rs.): - Diluted (in Rs.):	(0.49) (0.49)	(0.77) (0.77)	(a.4a) (a.4a)	(1.61) (1.61)

 The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges. under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.modisteel.com).

For NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LTD.

Pawan Kumar Modi It. Managing Director DIN: 00051679

# दि नैनीताल बैंक लि.

शाखा- बरेली रोड, गौरापडाव, पोस्ट अर्जुनपुर, हल्ह्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड-263139, फोन -05946-232111

कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति हेतु)

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता दि नैनीताल बैंक लि0, बरेली रोड, गौरापडाव, पोस्ट अर्जुनपुर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड-263139 शाखा का प्राधिकृत अधिकारी है तथा सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सटक्शन ऑफ फाइनेन्सियल ऐसेट्स एण्ड, इनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (SARFAESI) एक्ट 2002 के सेक्शन 13(2) के अधीन 60 दिन की अवधि का डिमान्ड नोटिस निम्नलिखित ऋणियों तथा जमानतियों को जारी कर चुका है। यह कि ऋणी/ जमानती पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ रहे अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) व रूल 8 एवं 9 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 04.09.2020 को निम्नलिखित सम्पत्ति का जो है जहां है जैसे है के आधार पर कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणीयों/जमानतियों तथा सामान्य रूप से सम्पूर्ण जनता को सावधान किया जाता है कि निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन–देन न करें। सम्बन्धित लेन–देन दि नैनीताल बैंक लि0 के संबंधित ऋणियों/जमानतियों पर देय धनराशियों तथा उस पर देय ब्याज एवं अन्य सम्बन्धित खर्चें की सीमा तक बैंक प्रभार के अधीन होंगे। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा-13 की उपधारा (8) के प्रावधान को आकर्षित किया जाता है।

ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

- त्रिलोक सिंह एण्ड कम्पनी (कर्जदार), पार्टनरशिप फर्म जिसका पता : बैरीपड़ाव, मोटाहल्दू, हल्द्वानी–263139, जिला
- श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी राजकुमार शर्मा (हिस्सेदार), निo: शक्ति मार्ग वार्ड नं. 03, नवाबी रोड, हल्द्वानी–263139, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड।
- 3. श्री राजकुमार शर्मा पुत्र रामपाल शर्मा (हिस्सेदार), नि० : शक्ति मार्ग वार्ड नं. ०३, नवाबी रोड, हल्द्वानी-263139, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड।
- श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री सुनील कुमार शर्मा (जमानती), नि० : पूर्वी द्वारिकापुरी, गैस गोदाम रोड, हल्द्वानी-263139, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड।
- 5(1). श्री हीरा शर्मा पत्नी रव. श्री सुनील कुमार शर्मा (जमानती रव. श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र रव. श्री ब्रहृदेव शर्मा के कानूनी वारिस), नि0: पूर्वी द्वारिकापुरी, गैस गोदाम रोड, हल्द्वानी-263139, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड।
- 5( 2 ). श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री सुनील कुमार शर्मा (जमानती स्व. श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री ब्रहृदेव शर्मा के कानूनी वारिस), निo:पूर्वी द्वारिकापुरी, गैस गोदाम रोड, हल्द्वानी-263139, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड।

5(3). श्री राहुल शर्मा पुत्र स्व. श्री सुनील कुमार शर्मा (जमानती स्व. श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री ब्रहृदेव शर्मा के कानूनी वारिस), निo: पूर्वी द्वारिकापुरी, गैस गोदाम रोड, हल्द्वानी-263139, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड।

डिमान्ड नोटिस रु. 1,43,79,923.00 (रुपये एक करोड़ तिरालिस लाख उनासी हजार नौ सौ तेईस मात्र दिनांक 11.03. 2020 तक) (दिनांक 31.01.2020 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे) दिनांक 11.03.2020 को जारी किया जा चूका है। दुष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि खसरा नं. 1/946 मिन, खाता नं. ० ० १२७, ग्राम दुर्गापालपुर परमा, महलक्ष्मी मंदिर के पास, बरेली नैनीताल रोड, तहसील लालकुओँ, जिला नैनीताल में रिथत है। क्षेत्रफल 16440 वर्ग फीट एवं उस पर बना 64.41 वर्ग मीटर पर बना व्यवसायिक भवन। सम्पत्ति उप निबन्धक हल्द्वानी, जिला नैनीताल के कार्यालय में बही नं. 1, जिल्द नं. 1343, पेज नं. 387 से 412, क्रमांक 2694, दिनांक 19.06.2017 को स्व. श्री सुनील कुमार शर्मा के नाम पर दर्ज है। सीमाएं-पूरब में रेलवे की भूमि, पश्चिम में बरेली नैनीताल रोड, उत्तर में विक्रेता की भूमि, दक्षिण में विक्रेता की भूमि।

स्थान : हल्द्वानी, जिला नैनीताल दिनांक : 06.09.2020 प्राधिकृत अधिकारी, दि नैनीताल बैंक लिमिटेड



# एपिस इप्डिया लिमिटेड

सीआईएन: L51900DL1983PLC164048 पंजीकृत कार्यालयः 18/32, हंस्ट पटेल नगर, नहं दिल्ली-110008

दूरभाषः ०११-४३२०६६५०; फैक्सः ०११-२५७१३६३१ I ई-मेलः mail@apisindia.com I वेबसाईटः www.apisindia.com उहवीं वार्षिक आम बैठक, ई-वौटिंग सूचना तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतडारा सूचना दी जाती है कि एपिस इंग्डिया लिपिटेड ("कप्पनी'') के सदस्यों की 38वीं वर्षिक आप बैठक ("एजीएप'') 38वीं एजीएप की सूचना दिनांक 20 अगस्त, 2020 में निर्मारित सामान्य एवं विशेष प्रकार्यों की मदों के लेग-देन हेतु बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को 10.00 बजे प्रातः ( भा.मा.स.) पर वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विज्अल साधनों ("ओएवीएप") के पाध्यप से आयोजित की जायेगी।

कोविड-19 महामारी के प्रसार, सोशल डिस्टेंसिंग मानकों के अनुपालन तथा देश में अनेक स्थानों पर लोगों की आवाजाही के जारी प्रतिबन्ध को देखते हुए तथा कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय डारा निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020 20/2020 क्रमशः दिनांक ७ अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 एवं 5 पई, 2020 ("एपसीए परिपत्र") तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिधय बोर्ड डारा निगर्त परिपत्र सं. SEBT/HO/CFD/CMD1/CTR/P/2020/79 दिनांक 12 पई, 2020 एवं अभिनियम के प्रावधानों तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के

उपर्युक्त परिपजों के अनुपालन में कम्पनी की 38वीं एजीएम वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो वीडियो मोड (''ओएवीएम'') के माध्यम से

बुधवार, 30 शितप्बर, 2020 को 10.00 बजे प्रातः (भा.मा.स.) पर आयोजित की जायेगी। पुनः वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएप की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ उन सभी सदस्यों के पास भैजी जा रही हैं जिनके ई-पेल आईडी कप्पनी/डिपॉजिटरी भादीगार के साथ पंजीकृत हैं। एजीएप की सचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ भेजने की आवश्यकता उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र के अनुसार समाप्त कर दी गयी है। एतद्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त 3%वीं एजीएप की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कप्पनी की वेबसाइट www.apisindia.com तथा साथ ही सीडीएसएल की बेबसाइट www.evotingindia.com और स्टॉक एक्सचेंज की बेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। कप्पनी (प्रवन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित कप्पनी (प्रवन्धन एवं प्रशासन), नियम 2014 के नियम 20 एवं 21 के साथ पिटत धारा 108 के प्रावधानों, सेबी (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 तथा सचिवीय मानक-2 के उपबन्ध 7.2.1 के अनुपालन में कम्पनी वार्षिक आप बैठक में इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा प्रस्तावित संकल्पों के विचार पर सदस्यों द्वारा अपना मतदान करने के अधिकार

की सुविधा प्रावधानित करते हुए हर्षित है और प्रकारों का लेन-देन ई-वोटिंग सेवाओं द्वारा सप्पन्न किया जा सकता है। एजीएप के स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक बोटिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए सदस्यों द्वारा पतदान की सुविधा ("रिपोट ई-बोटिंग") सेंट्रल दिपॉनिटरी सर्विसेन (इप्डिया) लिपिटेड ("सीडीएसएल") द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

सभी सदस्यों को एतडारा सुचित किया जाता है कि

1. 3%वीं एजीएम की सूचना में निर्मारित प्रकार्यों का लेन-देन रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली डारा एजीएम में किया जायेगा।

2. रिपोट ई-बोटिंग रविवार, 27 सितप्बर, 2020 को 9.00 बजे प्रातः (भा.मास.) पर प्रारम्भ होगी और पंगलबार, 29 सितप्बर, 2020 को सायं 5.00 बने (भा.मा.स.) समाप्त होगी। इसके पश्चात मतदान के लिए ई-बोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल डारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा। संकल्प पर एक बार पतदान कर लेने के उपरान्त बाद में सदस्यों को इसमें परिवर्तन की अनुपति नहीं होगी।

3. केवल कट-ऑफ तिथि बुधवार, 23 सितप्बर, 2020 तक भौतिक या अभौतिक रूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारक ही रिपोट ई-वोटिंग तथा एजीएप में बोटिंग की सुविधा ग्रहण करने के अधिकारी होंगे।

4. कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजे जाने के उपरान्त कप्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि बुभवार, 23 सितप्बर, 2020 तक शेयर भारण करता है वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। लॉगिन आईडी तथा पारावर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सूचना में भी उपलब्ध है जो कप्पनी की वेबसाइट (www.apisindia.com) तथा सीडीएसएल की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध है। यदि सदस्य ई-वोटिंग हेतु सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो वह रिपोट ई-बोटिंग के पाप्यप से पतदान हेत् वर्तपान युजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।

. सदस्यों के पतापिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात बुधबार, 23 सितप्बर, 2020 तक कप्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी के उनके शेयरों के अनुपात पे

. इलेक्ट्रॉनिक रूप से पतदान की सुविधा एजीएप के दौरान उपलब्ध करायी जायेगी।

7. जिन सदस्यों ने एजीएप से पूर्व रिपोट ई-वोटिंग द्वारा पतदान कर लिया है वे एजीएप में उपस्थित रह सकते हैं किन्तु वे पुनः पतदान करने के अपिकारी नहीं होंगे।

3. जिन सदस्यों ने रिपोट ई-बोटिंग के पाध्यप से अपना पतदान नहीं किया है और वे बीसी/ओएबीएप के पाध्यप से एजीएप में उपस्थित है वे सुचना में निर्पारित प्रक्रिया का अनुपालन करके एजीएम में ई-बोर्टिंग के पात्र होंगे।

. कोई व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 23 सित्वर, 2020 तक सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी रुवाणियों के रिजरूटर में रिकार्ड है वे रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा ग्रहण करने तथा एजीएम में मतदान के अधिकारी होंगे।

10. रिपोट ई-बोटिंग/ई-बोटिंग की प्रक्रिया तथा रीति के लिए सदस्य 38बीं एजीएप की सूचना में निर्देशों पर ध्यान दें। बार्षिकि रिपोर्ट, कप्पनी की एजीएप की सूचना तथा अन्य दस्तावेज कप्पनी की वेबसाइट www.apisindia.com तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इप्डिया) लिपिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindla.com पर भी उपलब्ध होंगे।

11. किसी पूछताछ के लिए सदस्य www.evatingindia.com पर हेल्प खण्ड के तहत उपलब्ध शेयरधारकों हेतु 'फ्रीक्वेंटली आस्वड क्वेशचन्स (एफएक्यु) तथा 'ई-वोटिंग पैनुअल' देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-पेल करें।

12. सदस्य रिमोट ई-बोटिंग/ई-बोटिंग से सम्बन्धित अपनी पूछताछ/शिकायत के लिए श्री राकेश दलवी, उपप्रबन्धक, सेंट्ल डिपॉनिटरी सर्विसेन ( इण्डिया लिपिटेड, १६वीं पंजिल, फीरोज जीजीबाई टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, पुप्बई-400001, ई-पेल helpdesk.evoting@cdslindia.com से राप्पर्क करें या टीलफ्री नं. 1800-200-5533 पर कॉल करें।

13. निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन हेतु श्री आनन्द कृपार सिंह, कार्यरत कप्पनी सचिव को संबीक्षक के रूप में नियुक्त किया

14. संबीक्षक की रिपोर्ट सहित रिपोट ई-बोटिंग एवं एजीएप में संचालित ई-बोटिंग के परिणाप एजीएप के परचात या इससे पूर्व योषित किये जायेंगे। संबीक्षक की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाप कप्पनी की वेबसाइट www.apisindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर एजीएप की सपापित के 48 वण्टों के भीतर अपलोड कर दिये जायेंगे और इसकी सचना स्टॉक एक्सचेंज को जहाँ कप्पनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, दे दी जायेगी।

एतद्वारा कप्पनी अभिनियप, 2013 की भारा 91 तथा दराके तहत निर्मित नियमों एवं सेमी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियप 42 के अनुसार सुचित किया जाता है कि 38वीं वार्षिक आप बैटक के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कप्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिका बुक क्लोजर अविध अर्थात बुहस्पतिवार, 24 शितप्बर, 2020 से बुधवार, 30 शितप्बर, 2020 तक (दोनों तिथियाँ शापिल) बन्द रहेंगी।

> कते एपिस इण्डिया लिमिटेड अमित आनन्द

प्रबन्ध निदेशक डीआईएनः ००१५१३२

केनरा बैक Canara Bank सिविकेटबैक SyndicateBank

Branch Office: Vijay Nagar, Ghaziabad. Email: cb19312@canarabank.com

### कब्जा नोटिस 8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत केनरा बैंक, शाखा गाजियाबाद का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदल्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 07.08.2019, को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता जयराज पुत्र चिरंजी लाल, श्री संजय बंसल पुत्र जीत राम बंसल खाताधारक हैं को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रू.- 11,32,996,77 /- (रूपये ग्यारह लाख बत्तीस हजार नौ सौ छियानवे और सत्तहत्तर पैसे केवल) अदा करने की तिथि 31.07.2019 तथा उस पर 01.08.2019 को ब्याज अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहरताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 2 सितम्बर 2020 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन केनरा बैंक, विजय नगर, गाजियाबाद शाखा को देय धनराशि रू.— 10,58,935.51 / — (रूपये दस लाख अटठावन हजार नी सौ पैंतिस और इक्यावन पैसे केवल) अदा करने की तिथि 31.08.2020 तथा उस पर ब्याज दिनांक 01.09.2020 को अदा करने को कहा गया था।

### अचल संपत्तियों का विवरण

भूमि और ईमारत खाता नं0. 92, खसरा नं0. 172, जिसकी माप 125.41 स्क्वेयर मीटर आवासीय कॉलोनी शिवपरी, गांव मवाई, तहसील और जिला गाजियाबाद मालिक जय राज सिंह। जिसकी सीमाऐ— उत्तर में 12 फिट रोड़, दक्षिण में प्लॉट का रिमेनिंग भाग, पूर्व डिगर मलिक का घर और **पश्चिम** में कौशिक का प्लॉट।

दिनांकः 02.09.2020 प्राधिकृत अधिकारी स्थानः गाजियाबाद। केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय

> बी.सी. पावर कन्ट्रोल्स लिमिटेड (CIN:L31300DL2008PLC179414)

फंजी. कार्यालयः ७ए/३९, डब्ल्यू हेए चना मार्केट, करील बाग, नहें दिल्ली-110005 Email: info@bonlongroup.com, Website: www.bcpowercontrols.com Phone: 011-47532795, Fax: 011-47532798

12वी वार्षिक सभा की सुवना जो वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित होगी सूचित किया जाता है कि कोशिड-19 महामारी के प्रसार को देखते हुए औ.सी. पायर कन्ट्रोल्स लिपिटेड ("कप्पनी") की 12वीं वार्षिक साधारण संपा ("एजीएप") कॉपीरेट कार्य पंजालय (एपसीए) के साधारण सब्दोलर नं. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 तथा एमसीए द्वारा जारी लागू होने वाले सभी ब्रानुनों तथा सकर्युलर्स, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा जारी, तथा भारतीय प्रतिभृति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) के राष्ट्रयुंलर ( सामृहिक रूप से राष्ट्रयुंलारी वर्णित) के अनुपालन में एजीएम की सूचना जो उपयुक्त समय पर पेजी

जायेगी, में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पदित करने के लिये गुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को 1.00 बजे अप. में विडियो कान्केंशिंग (वीशी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमें (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जायेगी। सदस्याग्य पुनः ध्यान रहों कि उपरोक्त सर्क्युलर्स के अनुपालन में तथा सरकार की गो-ग्रीन पहल को आगे गदाने के लिये एजीएम की सूचना तथा सिंत सर्ष 2019-20 के वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से केवल पेरे सदस्यों को ही भेजे जाएंगी जिनके ईमेल परे कप्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसपैन्ट के पास पंजीकुरा हैं। बीसी या औरबीरम के माध्यम से सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना अधिनयम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के लिये की जायेगी। पूर्व के व्यवहारों की तरह कम्पनी अपने सदस्यों को ई-पोटिंग था रिपोट ई-वोटिंग सुविधा ठपलब्ध करा रही है।

कप्पनी के एफवाई 2019-20 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएप सूचना की ई-कॉपी कप्पनी की वेगसाईट www.bepowereontrols.com राभा साथ ही औएसई लिपिटेड (औएसई) जेमसाईट www.bsein-सदस्य केवल वीसी/ओएबीएम द्वारा एजीएम में शामिल हो सकते हैं। एजीएम में शामिल होने का विस्तृत निर्देश

रजीरम की सुनना में दी जायेगी। सदनुसार, कृषया ध्यान रहे कि कोविड -19 महामारी से संबंधित सरकारी प्राप्तिकरणों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को सुनिश्चित करने के लिये व्यक्षितगत रूप से कम्पनी के एजीएम में उपरिश्वत तथा शापिल होने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि आपका ईमेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास पंजीकृत नहीं है तो कुपया नीचे सर्पित रूप

में उसके पंजीकरण की प्रक्रिया का अनुसरण करें: भौतिक धारिता। कप्पनो को 100% शेयर पूजो डि. मैटेरियलाइन्ड पद्धति में हैं।

अनुसरण कर अपना इंपेल पना पर्गोकृत कराएँ।

सदस्य यह भी खान रखें कि यदि आफ्जा ईमेल आईडी कप्पनी/डिपॉनिटरी पार्टिसपैन्ट के पास दर्ज है ते एजीएम की सूचना के साथ पंजीकृत ई-मेल पते पर रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिये| लॉगिन विवरण भेजा जायेगा। लेकिन, जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी पंजीकुरा नहीं कराये हैं, वे उपरोक्त रूप में ईमेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया का अनुसरण करें। सदस्यामा ध्यान रहों कि रिमोट ई- वेटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सुनाना

ठका जानकारी राभी सदस्यों के सूचनार्थ तथा लाभार्थ तथा एपसीए सक्ष्युंलर्स तथा रोबी सर्क्युंलर के अनुपाल में जारी की जा रही है।

कते एवं के लिये बी.सी. पावर कन्ट्रोल्स लिपिटेड

अरुण कुमार जैन

( प्रबंध निदेशक

DIN:00438324

स्थानः नई दिल्ली तिथिः ५ सितप्बर, २०२०



CIN: L271090P1963PLC002931 Regd. Office: AMTC, NH-25A Sarai Shahjadi, Lucknow-227101, Uttar Pradesh, India

Phone: 0522-7111017; Fax: 0522-7111020, Email: ptc@ptcil.com, Website: www.ptcil.com

### NOTICE OF 57th ANNUAL GENERAL MEETING. BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION TO MEMBERS

1) The 57th Annual General Meeting ("AGM") of the PTC Industries Limited will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Wednesday 30th September, 2020 at 03:00 (PM), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India 2019 India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out In the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC. OAVM through the CDSL e-Voting system. Members may access the same at https://www.evotingindia.com under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVSN of Company will be displayed.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and financial statements for the financial year 2019-20, along with Board's Report, Auditors Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.ptcil.com, website of BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM i.e. www.evotingindia.com Manner of registering / updating email addresses:

(a) In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (selfattested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

(b) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register/ update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.

Manner of casting vote(s) through e-voting: (a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting")

(b) The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.ptcil.com. (c) The facility for voting through electronic voting system will also be made

available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. (d) The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available

to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given In the Notes to Notice of (e) The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/

OAVM. 5. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the

AGM and in particular, instructions for Joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting during the AGM. Members are further Informed that the remote e-voting period shall start from

09.00 A.M on September 27, 2020 to 5.00 P.M. (IST) on September 29, 2020 (both days Inclusive). 7. A person, whose name is recorded in the Register of Members or In the Register

of Beneficial Owners (in case of electronic shareholding) maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. September 23, 2020, only shall be entitled to For PTC Industries Limited

Sd/-

(Anuj Nigam)

Company Secretary & Compliance Officer

मेगा निर्माण एण्ड इण्डस्टीज लिमिटेड सीआईएन : L70101DL1983PLC015425

पंजीकृत कार्यालय : ए-४/३४३बी, प्रथम तल, पश्चिम विहार, नहें दिल्ली-1100४३, ई-मेल : secretarial.mnil@gmail.com चेबसाइट : www.mnil.in

द्रभाष : 011-49879687

जारी कोविड-19 महापारी को देखरो हुए कॉपेरिट मापले पन्त्रालय (एपसीए) ने क्रमशः परिपत्र दिनांव 03.04.2020 तथा 13.04.2020 के पाध्यप से अपने परिपन्न दिनांक 5 मई, 2020 के पाध्यप से बीडियो कॉफ़ेर एवं अन्य ऑडियो-वीडियो साधनों ( ओएवीएप) के पाध्यप से एजीएप आयोजित करने की अनुपति दी है। हुन परिपन्नो तथा काण्यनी अधिनियम, 2013 के प्राराणिक प्रायधानो तथा रोष्ट्री (सुनीश्रद्धता दायिका एर्स प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में कम्पनी की भावी एजीएम बीही/ओएडीएम के माध्यम 30.09.2020 को 11.00 मने प्रातः आयोजित की जायेगी।

ठपर्युक्त परिपन्नों के अनुसार विस वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कैशर हलेक्ट्रॉनिक पाध्यप से उन सदस्यों के पास भेजी जायेगी जिनके ई-पेल आईडी फाले से कप्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं ।काप्पनी पूर्व की भौति अपने सभी सदस्यों को ई-सोटिंग तथा रिपोट ई-बोटिंग की सुविध

यदि आफ्का ई-मोल आईडी पहले से ही कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकुरा है तो वित्त वर्ष 2019 - 20 है? वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सुचना तथा ई- वोटिंग हेतु लॉगिन विधरण आपके पंजीकृत ई-पेल परो प भेज दिला जायेगा। यदि आपने इसे कप्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकरा नहीं किया है कृपला सिंच वर्ष 2019 20 की वर्षिक रिपोर्ट तथा ई-पोटिंग हेतु लॉगिन विवरंग प्राप्त करने के लिए निप्नलिखित निर्देशों क अनुपालन करके अपना ई-पेल आईडी पंजीकृत करा लें।

भौतिक। ईंग्पेल मना मजीकृत कराने हेतु कम्मनी रजिस्ट्रार एवं रोगर अन्तरमा एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एक धारिता कप्प्युटर सर्विसेन प्रा.ति. के पास फोलियो नप्बार, शेयरधारक का नाप, शेयर प्रपाणपत्र की स्कैन्ड प्रशि (आगे तमा पोछे), पैन (पैन कार्ड को स्वप्रपामित स्कैन्ड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रपामित स्कैन्ड प्रति) प्रस्तुत करते हुए beetaIrta@gmail.com पर निवेदन भेगें।

डॉफैट | कुममा अपने डिमॉलिटरी भागीदार (डॉपी) के साम सम्पक्त करें और डॉपी के मरामराांनुसार अपना ई-फेर धारिता पता पर्गोकत करायें।

यद्रि कप्पनी द्वारा चोषित होता है तो एनएसीएव द्वारा लाधाश के भूगतान हेतू अपने हीपी के साथ अपन बैंक विश्वारण अपडेट करायें।

एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2019 - 20 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वैग्रसाइट www.mnil.in तथ बीएसई की वेशसहद www.bscindia.com पर भी उपलब्ध होगी। बीसी/ओएसीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की परिगणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के सहरा कोरम प् करने के उद्देश्य से की जायेगी।

> कृते एवं हिं मेगा निर्माण एण्ड इण्डस्ट्रीज लिपिटेश

> > सुशी कनिक

(कपानी सविष

तिथि : 04.09.2020 स्थान : दिल्ली

डा. फ्रेश एसेट्स लि.

CIN: L74899DL1990PLC042302

पंजी. कार्यालय: बी/1/ई-24, पोहन को-ऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल, एरिया, पश्चरा रोड, नई दिल्ली-

टेली में 91-11-41679233, फैक्स में 91-11-26940969, ईपेल: driresh@drireshassels.com, केनसाईट: भभभ.drireshassels.com

30वीं वार्षिक साधारण सभा के विषय में शेयरधारकों के लिये सचना एनटुद्वारा सुबित किया जाता है कि कप्पनी के सदस्यों को 30वीं धार्षिक साधारण सभा (एजीएप) रविवार, 27 प्रितप्बर, 2020 को 3.00 बने अप. में कप्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले सभी प्रावधानों तमा उसके अवगंत निर्मित नियमों तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ( सृजीयन दामित्व तथा उदघाटन अमेक्षा) विनियमन 2015 के साम परित कॉर्पीरेट कार्य प्रवालय के साधारण सक्युंलर्स लिमि 8 अप्रैल. 2020. 13 अप्रैल. 2020 तमा S महं. 2020 (' एमसीए सक्युंतर्स') तमा सेबी सक्युंतर तिथि 12 महं. 2020 (' सेबी सक्युंतर') के अनुपातन किसी सामृद्धिक रमत पर सदस्यों की बारोरिक उपरिमित के बिना विडियों कार्केंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो हानुअल माध्यमी ("ओस्नीएम") सुविधा द्वारा आयोगित को नायेगो। सरस्यगण केवल वीसी/ओस्वीएम सुविधा द्वारा हो एजीएम में उपस्पित हो सकेंगे। बीसी/ओएबीएम सुविधा द्वारा उपस्पित होने वाले सदस्यों को गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 को धारा 103 के अनगंत कोरम के उद्देश्य से की जायेगी।

सव्यक्षित सक्युंतर के अनुपातन में एजीएम की सुबना तथा निदेशकों के रिपोर्ट, ऑडिटरों के रिपोर्ट तथा उसके साथ सतान किये जाने के तिये वाष्टित अन्य दस्तावेजों के साम वित्त वर्ष 2019-20 के वार्षिक विदारमों सहित वार्षिक रिपोरं 2019-20 केवल इंपेल द्वारा कप्पनी के ऐसे सभी सदस्यों को भेगी गाएगी गिनके इंपेल मने कप्पनो/डिपॉनिटरो पारिसिपेन्ट्स के पास पनोकृत होंगे। उपरोक्त दस्तवित कप्पनी को वेबसाईट अमीत् www.drfreshassets.com तथा स्टॉक एक्सबैंत नहा

कप्पनी के शेयर सुबीबाइ हैं. की वेबसाइंट अमीत् www.msei.in के साथ ही नेशनत साथ सिक्युरिटीज डिपॉनिटरी लिम्टिड को वेबसाइंट अमंत् www.evo.ing.nxdl.com. पर भी उपलब्ध कराई नायेगी। ई-बोटिगद्वारा पतदान का तरीकाः

क. सदरमों के पास इलेक्ट्रॉनिक बोटिंग प्रमाली ('ई. बोटिंग') द्वारा एगीएम की सुन्ना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर अपना

पतटान करने का अवसर होगा छ. डिपैंटेरियलाइन्ड पद्धति. भौतिक पद्धति मे श्रेमरधारित करने वाले सदस्यों तमा ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ई-मेल मने मजीकृत नहीं कराये हैं. के द्वारा रिमोट बोटिंग (''रिमोट हूं-बोटिंग'') को प्रक्रिया एजीएम को सूबन

ग. स्वीएम में ई-बोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई वायेगा तथा स्वीएम में उपस्थित होने वाले सदस्य विन्होंने रिपोट ई वोटिंग द्वारा अपना फ्तटान नहीं किये हों. एजीएम में फ्तटान करने में सक्षप होंगे। ई. वीटिंग द्वारा पनदान करने का लागिन क्रेडिन्शियल्स ईपेल द्वारा सदस्यों को उपलब्ध कराया गायेगा।

 वीली/ओस्वीएम द्वारा एनीएम में शामिल होने के लिये उसी लागिन केडेन्शियल्स का उपयोग किया नायेगा। यदि आपने कप्पनी/डिपॉनिटरों के पास अपना ईं.पेल पना पर्नोकत नहीं कराये हैं तो कृपया एजीएप में शापिल होने/इं-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिये लॉगिन विवारणों के साथ वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये नीवे द्विये गये निर्देशों को पालन करें: क) भौतिक धारिताः कृपया अपने फोलियों न.. शेयरधारक का नाम. शेयर प्रमाणमत्र (फ्रान्ट एवं बैंक) को स्कैन अप्रे. पैन (पैन कार्ड को स्वतः सत्यापित स्कैन्ड प्रति). अधार (अधार कार्ड को स्वतः सत्यापित स्कैन्ड प्रप्ति)

उपलब्ध कराने हुए हरनाधारिन अनुरोध पत्र को स्कैन को गई प्रति diffiesh@diffieshassets.com पर कप्पनी के ईमेल पने पर अपना पास सर्विशेस लि. कप्पनी के रिगरहार एन शेयर अनरण एगेन्ट. (आरटीए) के हं मेल आहंडी mas serv@yahoo.com मर भेगें। छ) डिपैट धारितः कृपया अपने डिपॉनिटरी पार्टिसिपैन्ट (डोपी) से सम्पर्क करें तथा डोपी की सताह से प्रक्रिया के

अनुसार अपने डिपैट खाते में अपना मता मजीकृत कराएँ। सदस्यों से आग्रह है कि. एजीएम को सुबना में निर्दिष्ट सभी टिप्पणियों तथा विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देशों. रिपोट इं वोटिंग अमवा एगोएंग के दौरान इं वोटिंग द्वारा पनदान को प्रक्रिया का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर तीं।

बोर्ड के लिये तथा उसकी और र डा फ्रेश एसेट्स लि

विजय प्रकाश पाठव

पूर्ण-कालिक विदेशक

DIN: 07081958

स्थान: नई दिल्ली तिषि: ३.१.२०२०

कीमिया बायोसाइंसेस लिमिटेड

( पूर्व में लॉरल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड) पंजी. कार्यालयः ग्राम भौण्डसी, तहसील सौहना, जिला गुड़गाँव, हरियाणा कार्पो. कार्याः १७७४, अग्रवाल मिलेनियम रावर-२, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली-११००३४

CIN: L24239HR1993PLC032120, ई-मेल: laurelorganicslimited@gmail.com, चेबसहंट: www.laurel.co.in, फोनः 011-47063600, फैक्स: 011-47063601/02

27वीं वार्षिक साक्षारण सभा तथा ई-वौटिंग जानकारी की सूचना एरदहारा खुचित किया जाता है कि:

 कींपिय। यायोसहरोस लिपिटेड ("कप्पनी") की 27वीं वार्षिक साधारण संपा (एजीएप) सोपवार 28 सितम्बर, 2020 को 3.30 धर्ज अप. मैं धिडियो कार्न्डिसिम ("बीसी") अन्य ऑडियो धिज्अल माध्यमी ("ओएमीएम") द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें ई-बोटिंग सुविधा द्वारा एजीएमें की राचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। 2. कप्पनी अधिनियम, 2013 के प्राथधानों तथा कार्पोरेट कार्य पत्रालय द्वारा जारी सर्क्युलर्स तिथि 5 मर्ह 2020, 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 तथा रोबी राज्युंलर तिथि 12 पई, 2020 के अनुपाल

में यह एजीएम भीरी/ओएभीएम द्वारा ही आयोजित की जायेगी। एजीएम के लिये प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सुचना में दी गई है। 3. थार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से केथल उन सदस्यों को ही भेजी जाएगी जिनके ई- मेल पते कप्पनी अथवा सीडीएसएल/एनएसडीएल (डिपॉजिटरीज) के पार

पजीकृत हैं तथा यह कप्पनी की वेबसाईट www.laurel.co.in तथा स्टॉक एक्सचैज की येबसाईट अर्थात् www.bseindia.com पर पी उपलब्ध होगा। जिन सदस्यों ने अपने ईमेल आईडी पजीकृत नहीं कराये हैं तथा इस कारण से एजीएम की सुचना तथा ई-बोटिंग के निर्देशों सहित वार्षिक रूप उन्हें सर्व नहीं किया जा सका, वे उसे धेजे जाने वे लिये कप्पनी के रजिरदार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट, मै. बीटल फाइनारियल एड कप्प्यूटर रार्थिसैस प्राई बेट लिपिटेड के पास अपना ईपेल पता तथा पोथाईल नप्बर पजीकृत करा सकते हैं। मैकल्पिक रूप से सदस्य ईपैल आईडी laurelorganicslimited@gmail.com य bestalrta@gmail.com पर अपना ईमेल पता. मोबाईल नम्बर, पैन कार्ड की रसतः रात्यापित प्रति तथा इलेक्ट्रॉनिक फौलियो के पापले में पास्टर कॉपी तथा धार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचन तथा ई-योटिंग के निर्देशों को प्राप्त करने के लिये पौतिक फोलियों के पापले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुरोध पत्र की हरताभारित प्रति की रकैन कॉपी के साथ अपना ई-पैल

अनुरोध भेज सकते हैं। 5. इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएप का सचालन करने तथा ई-बोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कप्पनी ने नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिपिटेड की एक प्राधिकृत एजेन्सी के रूप में सेवा प्राप्त की है। रिपोट ई-बोटिंग अबधि शुक्रवार, 25 रितिप्बर, 2020 (9.00 बजे पुर्वा, आईएसटी) में शुर होगी तथा रिववार, 27 शितप्बर, 2020 (5.00 बजे अप. आईएसटी) मैं बद होगी। इस अवधि के दौरान भौतिक पद्धति या डिपैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने धाले कप्पनी के योग्य शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना पतदान कर सकते हैं। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा ई-व्रीटिंग प्रमाल निष्क्रिय कर दी जायेगी अर्थात 27 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. के बाद भोटिंग की अनुपति नहीं दी जायेगी। एजीएम के दौरान ऐसे सदस्यों को ई-धोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जो एजीएम में शामिल होते हैं तथा जिन्होंने अपना मतदान नहीं किये हैं। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई- मोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये ही में बीसी/ओएबीएम द्वारा एजीएम में

शापिल हो सकते है लेकिन फिर से पतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे। ७. रिपोट ई-भोटिंग तथा एजीएम पैं ई-भोटिंग द्वारा पतदान के लिये सदस्यों की योग्यता सुनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि सोपवार, 21 सितप्बर, 2020 है। यदि कोई सूचना के प्रेषण के बाद कप्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, ये अपना परदान करने के लिये bestalrta@gmail.com अथमा laurelorganicslimited@gmail.com पर अनुरोध भेज कर लागिन आईडी तथा पारमर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लागिन आईडी तथा पारमर्ड प्राप्त करने तथा

ई-बोटिंग करने की थिरतृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। 7. किसी प्रकारी की पूछताछ के लिये आप www.evoting.nedl.com के डाउनलोड खड पै शेयरधारकों के लिये उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा शेयरधारकों के लिये ई-बोटिंग यूजन पैन्युअल देखे या टोल फ्री न. 1800-220-990 पर कॉल करें य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या सुश्री पल्लची प्हाजे, प्रथवक अधाया सुश्री सोनी सिह, सहायक प्रभवक, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिपिटेड, ट्रैड वर्ल्ड, "ए" विग, वथा तल, कपल पिल्स कम्पारण्ड, सेनापति बापत पार्ग, लोक्षर परेल, पुम्बई- ४०००१३ से बिनिर्दिष्ट ईपेल आईडी evoting@nsdl.co.in पर या pallavid@nsdl.co.in या sonis@nsdl.co.in पर य देलीफोन न. • 91-2224994545, 91-24994559, पर सम्पर्क करें जो इलेक्ट्रानिक माध्यमों से

पतदान से सबधित समस्याओं का समाधान करेंगे। ४. पारतीय प्रतिभूति और धिनियपय बोर्ड (सूचीयन दायित्य तथा उदपाटन अपेक्षा) धिनियपन, 2015 के लाए होने वाले नियमी तथा विनियमन ४२ के साथ पहित कम्पनी अधिनियम, २०१३ की धारा छा के अनुपालन में सदस्यों के रिजस्टर तथा कप्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 31 मार्च, 2020 को समाप्त थित वर्ष की 27वीं एजीएम के लिये मगलधार, 22 सितम्बर, 2020 से सोमधार, 28 सितम्बर, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक बद रहेंगै।

निदेशक मंडल के आदेश रे कीपिया बायोसाहरोस लिपिटेड के लिटे समीर गोयल

तिथि: 05.09.2020 (प्रवंथ निदेशक रथानः नई दिल्ली (DIN: 00161786

Place: Lucknow

Date: 04.09.2020

### NOTICE Notice is hereby given pursuant to provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015, that meeting of Board of Directors of the

Company is scheduled to be held on Friday, 11" day of September, 2020 at 4:00 P.M. at E-6, First Floor, Connaught Circus, New Delhi-110001, to consider and approve interalia Un-Audited Financial Results along with Limited Review Report for the First Quarter

The information is also available on the For BCC Fuba India Limited

### Place: New Delhi Date: 05.09.2020

CIN: L27205UP2001PLC026372 8/16, ए सेठ गली, आगरा, उत्तर प्रदेश - 282003

दिनांकित 27.08.2020 के अनुसार सामान्य व्यवसायों पर चर्चा करने के लिये सोमवार 28 सितंबर, 2020 को सुबह 11 बजे टेम्पटेशन (रेस्ट्रो लाउंज) बी-87, सेन्ट्रल बैंक रोड, कमला नगर, आगरा उत्तर प्रदेश 282005 पर आयोजित की जाएगी। यह नोटिस, प्रॉक्सी फॉर्म, अटेंडेस रिलप, वित्तीय विवरण, और वार्षिक रिपोर्ट के साथ सभी विहित सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों के लिये जिनका ई-मेल पता 05.09.2020 को कंपनी पर

ये सभी दस्तावेज कंपनी वेबसाइट यानी

तले, प्लॉट नं. ए—1 मधुबन टॉवर, वीर सावरकेर

नजदीक महाविदय क्षेत्र, घेवरा मोड, रोहतक रोड देल्ली में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की कराये गये इलेक्ट्रॉनिक बीटिंग सिस्टम (रिमोट

नके पंजीकत पते या ई—मेल आईडी पर भेज दी गई रिमोट ई-वोटिंग अवधि 26 सितम्बर, 2020 (प्रात : 9.00 बजे) प्रोरंभ होगी और 28 सितम्बर, 2020 (साथ 5.00 बजे) यद होगी।

की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों का वोटिंग अवधि 22 सितम्बर, 2020 (कट-ऑफ तिथि) द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपातिक होगा। कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को कम्पनी का द्वारा एजीएन की सुचना में निर्धारित सभी प्रस्तावाँ पर अपना बोट देने के लिए योग्य है। कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिगृहित करता

एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से वोट देने की

ई-वोटिंग पर किसी भी पूछताछ के लिए वेबसाइट उपलब्ध अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य) और \$–योटिंग मैनुअले का अवलोकन कर सकते हैं या 1800222990 पर सम्पर्क कर सकता है किसी भी

के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 🔏 सितम्बर, 2020 से 27 सितम्बर, 2020 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया गया बोर्ड की आज्ञानुसार अचल इन्येस्टमेंट्स लिमिटेड हस्ता/-

तिथि: ०४ सितम्बर, २०२०

रश्चानः नई दिल्ली